

एक्सप्रेस ट्रेन्स भी इस पर चलाने की सोच रहे हैं ?

SHRI A.B.A. GHANI KHAN CHOUDHURY :

Mr. Speaker, Sir, I have categorically and clearly stated that there is no need of doubling, because there is no constraint.

MR. SPEAKER : He is asking about some special trains or express trains to be diverted.

SHRI A.B.A. GHANI KHAN CHOUDHURY : Most of the trains are diverted in this route and the Shahdara-Tapri route, which was converted from Narrow Gauge. Now we normally use this line for the goods traffic and Ghaziabad-Saharanpur Tapri line is used for fast and passenger trains.

Schemes for the welfare of old aged people

*356. **SHRI K. PRADHANI :** Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether a significant demographic change in the country recorded by the 1981 census is the discovery that the increase in the population of the age group of 60 and above has been highest;

(b) whether this population of the aged has not so far been a priority with the country's planners;

(c) whether Government have under consideration or have formulated any plan to look after some of the main problems like health, income, isolation and accommodation faced by the elderly; and

(d) if so, the broad outlines thereof and in what shape and manner it is proposed to be implemented in the States and Union Territories ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA

KAUL : (a) Yes, Sir. The increase in population in the age group 60 in the period 1971 to 1981 is 34.87% as compared to 24.69% in the general population.

(b) The elderly constitute about 6 per cent of the total population and their care has not been a major problem in the country. Most families take care of their elder members. The elderly population in the organised sector are eligible for retirement benefits. The destitute old are covered by Old Age Pensions. The Central and State Governments support voluntary organisations working for the welfare of the aged.

(c) and (d) : Programmes in all the social service sectors like health, housing income generation, welfare, are meant for the entire population including the aged. No special programmes have been formulated for the aged separately.

SHRI K. PRADHANI : The Minister in her reply has stated that old and destitute persons are taken care of by the old age pensions scheme. May I know from the hon. Minister whether all the States and Union Territories of this country are implementing these schemes? If not, what are the States and Union Territories implementing this old age pension scheme, and what is the rate of remuneration per month?

SHRIMATI SHEILA KAUL : The list of States that give old age pensions, and the number of beneficiaries is a long one, but I am prepared to read it :

Andhra Pradesh : 1,67,361 beneficiaries getting a pension of Rs. 30/- p.m.; Assam : 15,000 beneficiaries—Rs. 60/- p.m. ; Bihar : 22,53,486—Rs. 30/- p.m. ; Gujarat : 6,589—Rs. 30/- p.m. ; Haryana : 18,120—Rs. 60/- p.m. ; Himachal Pradesh : 45,649—Rs. 50/- p.m. ; Jammu & Kashmir : 5640—Rs. 60/- p.m. ; Karnataka : 3,83,869—Rs. 40/- p.m. ; Kerala : 57,838—Rs. 55/- p.m. ; Madhya Pradesh : Figures regarding the number of persons getting the pension is not available, but the pension amount is Rs. 60/- p.m. ;

Maharashtra : 2,93,848—Rs. 60/- p.m. ;
 Manipur : 1123—Rs. 60/- p.m. ;
 Meghalaya : 1150—Rs. 60/- p.m. ;
 Nagaland : 1100—Rs. 60/- p.m. ;
 Orissa : 96,326—Rs. 40/- p.m. ; Punjab :
 1,08,960—Rs. 50/- p.m. ; Rajasthan :
 75,000—Rs. 40/- p.m. ; Sikkim : 297—
 Rs. 50/- p.m. ; Tamil Nadu : 1,99,339—
 Rs. 35/- p.m. ; Tripura : 5914—Rs. 30/-
 p.m. ; Uttar Pradesh : 55,363—Rs. 60/-
 p.m. and West Bengal—30,000—
 Rs. 30/- p.m.

Should I continue, Sir ?

MR. SPEAKER : You can place it on the Table of the House.

SHRI K. PRADHANI : The Minister in her reply has also stated that the Central and State Governments are supporting some voluntary organizations working for the old people. May I have the details of some organizations which are working for the welfare of the elderly people ?

SHRIMATI SHEILA KAUL : There are 279 voluntary organizations working for the benefit of the aged people.

They run homes and offer assistance to the aged in their own way.

श्रीमति गुरचिन्दर कौर द्वार : अध्यक्ष महोदय, मैं आनरेबल मिनिस्टर से दो-तीन स्पष्टीकरण चाहूंगी। हमें खुशी है कि जिस तरह से आपने ओल्ड ऐज पेंशन के स्टेट-वाइज आंकड़े बताये, वे सराहनीय हैं, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी प्रीब्लम यह आ रही है कि हिन्दुस्तान में जो अच्छे घरों के मिडिल ऐज के लोग हैं, वे अपने बुजुर्गों को सम्भाल लेते हैं, लेकिन जो लोग पहले ही पावर्टी लाइन के नीचे रहते हैं वे उनके ऊपर बोझ बन जाते हैं। आपने बताया कि हमारे यहां कुछ वालंटरी आर्गनाइजेशन्स रन जरूर करती हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या गवर्नमेंट की भी ऐसी कोई प्लानिंग है, इस वक्त कितने होम बने हैं और सातवीं पंच वर्षीय योजना में आपने इनके विस्तार के लिए कुछ धन का प्रावधान किया

है, या नहीं ? क्यों कि यह बहुत इम्पॉर्टेंट मामला है। उनके लिए आइसोलेशन एक जबदस्त प्रीब्लम है। या तो गवर्नमेंट उनके लिए स्वयं प्रबन्ध करे, क्यों कि मैंने देखा है कि कुछ होम्स वालंटरी आर्गनाइजेशन्स के द्वारा रन किए जाते हैं, उनकी हालत बड़ी खराब है। यदि वे उनको रन न करें तो अच्छा है। क्या आपने सातवीं पंच वर्षीय योजना में इस प्रीब्लम की तरफ ध्यान देकर कुछ प्रावधान किया है। इस वक्त गवर्नमेंट कितने होम्स रन कर रही है।

श्रीमती शीला कौल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी कहा है कि हमारे यहां लगभग 300 वालंटरी आर्गनाइजेशन्स ऐसी हैं जो इस काम में मदद करती हैं। बल्कि हम चाहते हैं कि उनकी हौसला अफजाई की जाए। क्यों कि यदि सारे कार्य गवर्नमेंट अपने ऊपर ले लेती है तो इससे वालंटरी आर्गनाइजेशन्स का रोल घट जाता है। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए हमने यह कार्य वालंटरी आर्गनाइजेशन्स को दिया हुआ है इन वालंटरी आर्गनाइजेशन्स को, जिनकी संख्या मैंने 300 के लगभग बताई, हमारी सोशियल वेलफेयर मिनिस्ट्री ने ग्रान्ट देना शुरू की है, फार दी वेलफेयर ऑफ ऐज्ड, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनके कल्याण के लिए, लेकिन वह अमाउन्ट कुछ ज्यादा नहीं है। इनमें 5 वालंटरी आर्गनाइजेशन्स ऐसी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उनको 3.86 लाख रुपया दिया जाता है। हम इस राशि को बढ़ा कर 8 लाख तक ले जाना चाहते हैं। हमें खुशी होगी यदि हमारे साथी इन वालंटरी आर्गनाइजेशन्स के साथ मिलकर काम करें, उससे हमारे समाज की मदद होगी, हमारे बुजुर्गों की मदद होगी और जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा, बुजुर्ग इंसान को अकेलापन बहुत खलता है वह उसको खा जाता है, इस-लिए उनकी सहायता करने का हमारे सामने

एक बहुत बड़ा सवाल है, समस्या है। इस कार्य में हमारे समाज के नवयुवक भी सहयोग दे सकते हैं, जो बड़े होने पर हमारे साथी बन जाते हैं, उन्हें भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा।

SHRI K. RAMAMURTHY : This section constitutes 34 per cent of the total population. Fortunately, in our Indian society, we are having a joint family system and that is why this has not become a big problem to us. But, in future, we have to look into it in view of the bulk number of people who are constituting our population. From the reply I find that there is no uniform quantum of rate for pension to these people. Will the Central Government come forward to specify or notify the uniform rate to them and also the farming part of the agricultural population which is out of this 34 per cent but constitutes more than 80 per cent? Will they introduce the retirement benefit for those agricultural workers?

श्रीमती शीला कौल : अध्यक्ष महोदय, हमारे समाज में दो तरह के वृजुर्ग लोग हैं और उनको हम बांट सकते हैं एक आर्गनाइज्ड ग्रुप में जो कि फैक्ट्रीज में या सरकारी नौकरियों में काम कर के रिटायर हो गये और उनको पेंशन तथा दूसरे पेंशनरी बेंनीफिट्स जैसे ग्रैचुटी, लीव ऐनकैशमेंट, प्रावीडेंट फंड मिलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग है जो अनआर्गनाइज्ड सैक्टर कहलाता है उनकी हमारे लिये प्रोब्लम है और मैजोरिटी इन्हीं की है इनको इंस्टीट्यूशनल सविसेज बगैरह दी जाती है, जितनी होनी चाहिये वह नहीं है, और हम चाहते हैं कि इन चीजों को बढ़ायें और हम मदद कर सकें। और जो कहा गया है कि हर स्टेट की मुख्तलिफ पेंशन है तो हमारी तरफ से स्टेट्स को खत गये हैं जिनमें कहा है कि आप मेहरबानी कर के पेंशन बराबर कीजिये और इसमें फर्क नहीं होना चाहिये। ऐसा हमने हर स्टेट को लिखा है।

PROF. N.G. RANGA : Mr. Speaker, Sir, I feel ashamed of myself and my society that such is the plight of the pensioners.

MR. SPEAKER : We are proud of you.

PROF. N.G. RANGA : It is very bad that the pension should be as bad as Rs. 30 to Rs. 40, that is being granted on pension. I do not know how my hon. friend the Minister concerned feels about it. I am glad that Mr. Ramamurthy has drawn our attention to agricultural workers and their plight. I come across very old people, widows and widowers, who are completely helpless. They are not able to help themselves, they are not able to beg also. Such people they come and ask for pension, to ask the State Government or the Union Governments. But what is the Union Government doing in order to supplement what little the State Government is doing today? I would like my hon. friend to persuade the Planning Commission and the Government as a whole to see that they supplement whatever is done by the State Governments. The Central Government should share whatever the State Governments are doing.

श्री मनीराम बागड़ी : मेरे ख्याल में रंगा साहब प्रोटेस्ट कर के इधर आ जाओ।

SHRIMATI SHEILA KAUL : The hon. Member has asked what the Central Government is doing. As I said, we have requested the States to increase their pensions to the aged and to bring them at par with others also.

PROF. N.G. RANGA : What about ourselves? What about the Government of India? What is it doing?

SHRIMATI SHEILA KAUL : This is the concern of the States.

PROF. N.G. RANGA : Why should it be the concern of the State Governments alone? Why not of the Government of India? Why should not they not share 40 to 50 per cent of it with the State Government or do something?

SHRIMATI SHEILA KAUL : If they are employed in one place they get their pension from that State only.

(Interruptions)

MR. SPEAKER : Shri G. Y. Krishnan. Absent, Shri Manohar Lal Saini.

More Tar in Indian Cigarettes than Foreign Cigarettes and Restriction on their Advertisements

*358. SHRI MANOHAR LAL SAINI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state;

(a) whether it is a fact that Indian cigarettes contain more tar as against that contained in foreign cigarettes;

(b) if so, whether there is any proposal before the Government to ask the manufacturers to reduce the tar and nicotine and to specify on the packet of cigarette in bold letters the contents of tar and nicotine; and

(c) whether Government propose to impose restrictions on the cigarette advertisements and ask the manufacturers to give two counter advertisements on the harmful effects of smoking ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI) : (a) Some studies done in this field indicate that the tar content of the Indian Cigarettes is fairly high.

(b) No such immediate proposal is before the Government.

(c) The medias under the Government like All India Radio and Door-darshan have stopped accepting advertisements for cigarettes. It has also been decided to stop accepting advertisements for cigarettes in the Asiad Stadia at Delhi. However there is no immediate proposal to prohibit all advertisements in general or to give two

counter-advertisements on the harmful effects of smoking. The Government proposes to consider in detail the manner in which all types of tobacco use, including smoking, could be controlled after taking all relevant factors into consideration.

श्री मनोहर लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, जवाब में आया है कि भारतीय सिगरेट में टार की मात्रा अधिक होती है और सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव या योजना नहीं है जिससे इसको कम करने के लिये सिगरेट उत्पादकों से कहा जा सके। न ऐडवर्टिजमेंट में इसके नुकसान को दिखाया जाय ऐसा भी कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है सरकार सिगरेट उत्पादकों के किस दबाव के कारण ऐसा नहीं कर रही है ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या यह अध्ययन किया गया है कि मानव स्वास्थ्य पर इसका क्या कुप्रभाव पड़ता है ; यदि हां, तो सरकार ने इसकी रोक-थाम के लिए क्या योजना बनाई है।

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : अपने जवाब में मैंने कहा है कि फिलहाल हमने कुछ नहीं सोचा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में भी हम सोचने नहीं जा रहे हैं। हम इस बात से बिल्कुल अवगत हैं कि तम्बाकू पीने और चबाने से जो रोग होता है, उसका प्रिलिमिनरी प्रिवेंशन करना चाहिए। इसी लिए हमने आई० सी० एम० आर० को, जो मेडीकल रिसर्च की आर्गनाइजेशन है, इस बारे में एक रिपोर्ट बना कर देने के लिए कहा था, ताकि हम फैसला कर सकें कि हमने क्या एक्शन लेना है। सदन को पता है कि हिन्दुस्तान टोबैको का सब से ज्यादा प्राडक्शन करता है और लैंड का बहुत एकरेज टोबैको के अन्तर्गत आता है। दूसरे मंत्रालयों का भी इस प्रश्न के साथ सम्बन्ध है। इस लिए हम सोच रहे हैं कि हम सब मिनिस्ट्रीज के साथ मिल कर इस रिपोर्ट को देखें और कोई प्लान आफ एक्शन बनाएं। हम